

बड़ी कार्रवाई: चूरू में नकली दूध बनाने का 44 क्विंटल पाउडर और केमिकल बरामद, आरोपी हुए फरार



चूरू (Churu) जिले की सरदारशहर पुलिस (Sardarshahar Police) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर नकली दूध (Fake milk) बनाने के काम लिया जाने वाला 44 क्विंटल पाउडर और अन्य केमिकल बरामद (Chemical recovered) किया है.

- **NEWS18 RAJASTHAN**
- **LAST UPDATED: JANUARY 28, 2020, 4:36 PM IS**

चूरू. जिले की सरदारशहर पुलिस (Sardarshahar Police) ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई कर नकली दूध (Fake milk) बनाने के काम लिया जाने वाला 44 क्विंटल पाउडर और अन्य केमिकल बरामद (Chemical recovered) किया है. पुलिस कार्रवाई की भनक पाकर आरोपी मौके से फरार हो गए. प्रारंभिक तफ्तीश (investigation) के बाद पुलिस का मानना है कि फरार हुए आरोपी नकली दूध बनाकर सरदारशहर कस्बे और आसपास के इलाके में सप्लाई (Supply) करने की योजना बना रहे थे.

पुलिस कार्रवाई की भनक पाकर आरोपी हुए फरार

थानाधिकारी **महेन्द्रदत्त शर्मा** के अनुसार यहां हरियाणा से आये लोग नकली दूध बनाने की तैयारी कर रहे थे. यह मकान उन्होंने किराये पर ले रखा है. मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने मंगलवार को इस मकान पर दबिश दी. लेकिन आरोपियों को भी **पुलिस कार्रवाई** की भनक लग जाने से वे दूध बनाने के उपकरण लेकर मौके से फरार हो गए. लिहाजा पुलिस को मौके पर कोई नहीं मिला. लेकिन मकान से भारी मात्रा में नकली दूध बनाने का सामान बरामद हुआ है.

मकान से यह सामान हुआ बरामद

पुलिस ने इस मकान से 125 किलोग्राम सिकमैड पाउडर, 25-25 किलोग्राम के 11 कटटे ग्लूकोज पाउडर, 25-25 किलोग्राम के 160 कट्टे लेक्टॉस पाउडर, 17 टीन रिफाइंड पाम ऑयल, सौरबूटॉल केमिकल से भरे हुए ढाई ड्रम, 10 खुली केन और पांच ड्रम अन्य लिक्विड बरामद किया है. बकौल थानाधिकारी रसद विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाकर सैम्पल भरवाकर भेजे गए हैं. सैम्पलों की रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का पुरा खुलासा हो जाएगा.

नकली दूध बनाकर उसकी सप्लाई करने की तैयारी में थे

इस तरह का सामान मिलने से यही माना जा रहा कि ये लोग क्षेत्र में नकली दूध बनाकर उसकी सप्लाई करने की तैयारी में थे. पुलिस मकान मालिक से पूछताछ कर इसमें किराये पर रहने वाले हरियाणा के लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है. इसके साथ ही पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है.

Source: <https://hindi.news18.com/news/rajasthan/churu-big-action-of-churu-police-44-quintals-of-fake-milk-making-powder-and-chemical-caught-accused-fled-rjsr-2811688.html>